



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-29/2021 दिनांक 29.01.2021)

दिनांक- 29.01.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

चोरी कर ले जायी जा रही 47 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरों के गैंग का पर्दाफाश-

जनपद में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.01.2021 की रात्रि को थाना तुर्कपट्टी व थाना तरयासुजान पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर टडवा मोड के पास से थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2021 धारा 457,380 भादवि की घटना से संबंधित एक पिकप नम्बर BR 28 GA 4209 में चोरी की अंग्रेजी शराब 47 पेटी कुल 1842 शीशी भिन्न- भिन्न ब्राण्ड की (कीमत लगभग 8 लाख रुपये) के साथ एक अभियुक्त फरहान खान उर्फ आशिक उर्फ मोनू पुत्र इब्राहिम निवासी सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को देखकर इसके 05 अन्य साथी अभियुक्तगण अन्धेरे का लाभ लेकर मौके से फरार हो गये जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि हमने इसी पकड़े गये पिकप वाहन से अपने साथियों के साथ मिलकर, जो मौके से भाग गये हैं इसके पहले विभिन्न तिथियों में चोरी की कई घटनाएँ की हैं। जिसमें थाना कसया क्षेत्र के गोबरही चौराहा स्थित शराब की दुकान, भैसहां, हेतिमपुर, बाणीपुल, स्थित शराब की चार दुकानों से अलग-अलग शराब की चोरी किये थे तथा सपहा में शराब की दुकान में चोरी का प्रयास किये थे किन्तु असफल रहे। इसके अतिरिक्त पड़रौना थाना क्षेत्र के बेलवा मिश्र में अमित ट्रेडर्स की दुकान से रुपये की चोरी तथा वहीं सटे अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब की चोरी एक ही साथ में किये थे। इसके अतिरिक्त रामकोला थानाक्षेत्र के मिश्रौली देशी शराब की दुकान से चोरी की घटना किये थे तथा टोला चितवन में 02 बार में सागवान के 19 पेड़ काटकर चोरी कर इसी पिकप से ले गये था। इसके अतिरिक्त विशुनपुरा थानाक्षेत्र के दुदही कस्बा से किराना की दुकान से राशन की चोरी किये थे एवं जनपद महाराजगंज के थाना क्षेत्र श्यामदेउरवा के पड़तावल छातीराम नहर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब की चोरी किये थे। जनपद कुशीनगर में चोरी की उपरोक्त घटनाओं के संबंध में थाना कसया में 04 अभियोग चोरी की घटना के तथा 01 अभियोग चोरी के प्रयास का, थाना रामकोला में 02 अभियोग, को0 पड़रौना में 02 अभियोग, थाना विशुनपुरा में 01 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं जिनका अभियुक्त की पूछताछ से खुलाशा भी किया गया है। शराब बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0- 30/2021 धारा 41/411 भादवि व 60(1),72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी:-

1. चोरी किया हुआ अंग्रेजी शराब 47 पेटियों में कुल 1842 शीशी शराब (कीमत लगभग 8 लाख रुपये)
2. पिकप वाहन संख्या BR 28 GA 4209 (वाहन की कीमत लगभग 7 लाख रुपये)

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. फरहान खान उर्फ आशिक उर्फ मोनू पुत्र इब्राहिम निवासी सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

फरार /वांछित अभियुक्तगण-

1. राजा शेख पुत्र सफीक निवासी लालागुरवलिया शेखवा टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. मोनू शेख पुत्र समीर शेख निवासी लालागुरवलिया शेखवा टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
3. सकील पुत्र अज्ञात निवासी लालागुरवलिया शेखवा टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
4. जफरुद्दीन पुत्र आबिद अली साकिन सोहसा मठिया थाना कसया हा0मु0 टेकुआटार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
5. छोटे राजा आलम पुत्र मो0 हफीज साकिन जगरनाथ थाना मंजागढ जनपद गोपालगंज बिहार।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
3. चौकी प्रभारी बहादुरपुर उ0नि0 श्री दीपक सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 श्री इस्तेखार हुसैन थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
5. हे0का0 परशुराम राय थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।
6. का0 विजयथाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।
7. का0 अजीत रायथाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।
8. का0 अमित यादव थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।
9. का0 अनिल यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

- 10.का0 संजय यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 11.का0 अविनाश यादवथाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 12.का0 सौरभ कुशवाहा थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्त को 28 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 27.01.2021 को दिन में जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत पुरानी रंजिश को लेकर मेहड़ा पुल के पास दो बदमाशों द्वारा गोली चलायी गयी थी जिसमें तीन युवक क्रमशः 1.आदित्य मिश्रा पुत्र मनीष मिश्रा नि0 साखोपार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर, 2.आयुस्मान प्रताप सिंह पुत्र अखण्ड प्रताप सिंह नि0 कस्बा व थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर, 3.अनीष कुशवाहा पुत्र राममनोहर कुशवाहा नि0 डीसीएफ चौराहा कस्बा व थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर घायल हो गये थे। एक अभियुक्त राहुल पासवान उर्फ ऋषि पुत्र अगंद प्रसाद नि0 वार्ड न0 07 कस्बा व थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़कर काफी मारा-पीटा गया था जिसके कारण उसको भी चोटें आयी थी जिसको इलाज पुलिस की निगरानी में मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है। घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 36/2021 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया।दूसरा नामित अभियुक्त गोपाल दुबे पुत्र अमित कुमार दुबे उर्फ पिन्दू दूबे साकिन सोहनी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर मौके से फरार हो गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस की कई टीमों लगायी थी। अभियुक्त गोपाल दुबे उपरोक्त को थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा 28 घण्टे के अन्दर इन्दरपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल 32 बोर, फायर शुदा खोखा 32 बोर व अपाची मो0सा0 वाहन सं0 UP 57 AE 1777 को बरामद किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर अलग से मु0अ0सं0-38/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.गोपाल दूबे पुत्र अमित कुमार दुबे उर्फ पिन्दू दूबे सा0 सोहनी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी:-

- 1.एक अदद पिस्टल 32 बोर व फायर शुदा खोखा 32 बोर
- 2.घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल UP 57 AE 1777

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नी0 श्री कपिलदेव चौधरी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 श्री श्रवण कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 सोनदेव यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
4. हे0का0 श्रीनिवास सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
- 5.हे0का0 रावेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
6. का0 प्रवीण सरोज थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
7. का0 विवेक यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन में कार्यवाही-(कुल-04)

थाना हनुमानगंज -

थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त श्यामलाल पुत्र ठगई साकिन दरगौली भीमनगर थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 10/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1. लम्भू पुत्र भुटेली निवासी सेमरा उर्फ झंगवा थाना कसया जनपद कुशीनगर 2.बिन्दू पुत्र भुटेली निवासी सेमरा उर्फ झंगवा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 80/2021,81/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रामकोला-

थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-35/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गोवध निवारण अधिनियम में कार्यवाही-

थाना तुर्कपट्टी-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा एक कन्टेनर नं0 UP 12T 6286 लावारिस से 01 मूत बैल बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-29/2021 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम अज्ञात दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-(01)

थाना पटहेरवा-

थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मो0 समसुल हुदा पुत्र मो0 हदीश सा0 पिपराकनक महरूम टोला थाना पटहेरवा कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकू बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 46/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

वारंटियों की गिरफ्तारी-(01)

थाना कुबेरस्थान-

थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त हसमुद्दीन अंसारी पुत्र गुफ्तार अंसारी सा0 जंगल पिपरासी नौका टोला थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0नं0- 62/2019 धारा 323/504/316/506 भादवि0 व 3(1) एससी/ एसटी एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 08 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-122 वाहन।
- 2.107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-16, व्यक्ति-68
- 3.आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही -मु0-05, अभि0-05, बरामदगी-एक पिकप वाहन में 47 पेटियों में कुल 1842 शीशी शराब (कीमत लगभग 8 लाख रुपये) 70 ली0 अवैध कच्ची शराब ।
- 4.वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-01
- 5.आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी- एक अदद पिष्टल 32 बोर मय खोखा, एक अदद चाकू।
- 6.पशु क्रूरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-01, बरामदगी-एक अदद कन्टेनर वाहन में एक राशि मृत गोवंश।
- 7.जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-16)।

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर